

MUNJAL SHOWA LIMITED

Registered Office & Works : 9-11, Maruti Industrial Area, Sector - 18, Gurugram - 122 015 (Haryana) INDIA
E-mail : msladmin@munjalshowa.net Website : www.munjalshowa.net
Corporate Identity Number : L34101HR1985PLC020934, PAN : AAACM0070D
Phone : 0124-4783000

June 25, 2022

The D.G.M. (Listing)
Corporate Relation Department
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai-400 001
Security Code: 520043

The Asst. Vice President
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai – 400 051
Security Code: MUNJALSHOW

Sub: Intimation to Stock Exchange regarding issuance of Notice in newspaper

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47(3) read with Schedule III of SEBI (Listing, Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 the Company hereby informs that a Notice to shareholder has been published in 'Mint' (English newspaper), 'Hindustan' (Hindi Newspaper) on June 25, 2022 pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 6 of Investors Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and as amended from time to time.

We would also like to inform that as per Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, we have also sent individual notices, to the shareholders, who have not claimed dividend for seven or more consecutive years and whose shares are liable to be transferred to the Demat Account of IEPF Authority during the financial year 2022-23.

Kindly take the aforesaid information on your records.

Thanking you,

Yours sincerely,
For MUNJAL SHOWA LIMITED


(Neha Bansal)
Company Secretary & Compliance Officer
Encl: as above





MCA reworks rules for winding up businesses

Voluntary exits will help take defunct companies out of official database

Gireesh Chandra Prasad
gireesh.p@livemint.com
NEW DELHI

The ministry of corporate affairs (MCA) has revised the rules on voluntary winding up of companies to give additional opportunities to companies for making the case for an exit through electronic filing after the initial request.

The idea is to make the corporate exit process under the Companies Act provisions, outside the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), smoother. The move seeks to improve the business climate as ease of exit is a consideration for many entrepreneurs before they commit investments.

Before allowing voluntary closure of businesses, the registrar of companies has to make sure that the company has no assets or liabilities and needs to review the latest financial statements.

The Companies (Removal of names of companies from the register) Amendment Rules 2022 notified by the ministry offers two additional opportunities for businesses to rectify their application for closure and to provide any additional information sought by the registrar. On each of the occasions, the businesses can furnish the information within 15 days of intimation by the regulator, according to the order.

Voluntary winding up offers an opportunity for companies with little economic activity to down their shutters outside the IBC process. This is vital for the industry as many entrepreneurs remain unable to commence business operations for various economic reasons after incorporating a company. This is separate from the regulator striking off the name of the company from the register for defaulting on filing annual returns for two consecutive years. At present, around 40,000 companies are being removed from the official database this way. Companies that do not commence operations after incor-



The change in rules seeks to improve the business climate as ease of exit is a consideration for many entrepreneurs before they commit investments.

poration have the option to seek 'dormant status' to avoid getting struck off by the regulator.

Voluntary winding up under the Companies Act and the corporate restructuring option available under a 2019 Reserve Bank of India scheme are two options other than IBC available to businesses.

offer no chance of a turnaround. The government is working on amendments to the IBC and a Bill is expected to be placed before Parliament in the monsoon session. The proposals include a cross-border insolvency regime and steps to reverse questionable transactions of bankrupt firms.

Experts said that voluntary winding up and removing defunct companies by the registrar help keep the official database clean and manageable at a time the government is scaling up services to the industry. Keeping the database manageable is also vital for effective enforcement. MCA recently rolled out a new module for limited liability partnerships on its compliance portal MCA21 and is rolling out a similar module for companies. The ministry is increasingly relying on data analytics and artificial intelligence to detect trends from the vast amount of statutory filings by companies that may warrant detailed inspection.

The government has been taking several steps to address industrial sickness. IBC has increased the pace of resolving bankruptcies, but legacy cases transferred to the National Company Law Tribunal from the previous regime of the Board for Industrial and Financial Reconstruction dominate cases of liquidation under the IBC regime. These cases with little assets

Maruti Suzuki and Toyota to produce hybrid SUV in India

Alisha Sachdev
alisha.sachdev@livemint.com
NEW DELHI

Toyota Kirloskar Motor (TKM), the local unit of Toyota Motor Corp, is set to begin production of an SUV developed by Suzuki Motor Corporation at its factory in Bidadi, Karnataka from August this year, the company announced on Friday.

The car, which will be offered in two hybrid electric variants - mild and strong - will be positioned as a high-traction mid-sized Sports Utility Vehicle (SUV) to take on best-sellers Creta and Seltos, made by South Korean rivals Hyundai and Kia, respectively.

The SUV will be cross-badged by the two companies, allowing both Maruti Suzuki and Toyota Kirloskar Motor to sell the car in India and export markets in Africa under different brand names. While the mild hybrid technology for the SUV will be supplied by Suzuki and strong hybrid tech by

The mild hybrid technology for the SUV will be supplied by Suzuki and strong hybrid tech by Toyota



The SUV will be cross-badged by the two companies.

Cruiser", Shashank Srivastava, executive director, Maruti Suzuki, said.

The move by the two Japanese heavyweights to deepen their alliance in India comes at a time when Maruti Suzuki is gearing up to introduce an SUV-focused new product lineup to fill gaps in its portfolio and enable it to claw back the market share it has lost to rivals Tata Motors and Hyundai who have been introducing SUVs at a time the segment accounts for over 40% of all passenger vehicle sales. The Japanese first inked their business alliance in 2017.

"Toyota and Maruti Suzuki are promoting mutual supply of vehicles globally, which is one of the collaborations in the business partnership, and the two companies will now start production of a new SUV model developed by Suzuki at Toyota Kirloskar Motor Pvt. Ltd. (TKM) from August. Maruti Suzuki India Limited and TKM will market the new model in India as Suzuki and Toyota models, respectively. Furthermore, the two companies are planning to export the new model to markets outside India including Africa," the two companies announced in a press release.

WAY OUT

VOLUNTARY winding up gives firms the chance to close outside the IBC process

THIS is vital for the industry as many are unable to start business after incorporation

VOLUNTARY winding up is one of two options other than IBC available to businesses.

BSES Yamuna Power Limited, Delhi ... A joint venture with Govt. of NCT of Delhi						
NOTICE INVITING TENDER Date: 25.06.2022						
Sealed tenders under two Bid System (Unpriced & Priced) is invited for following jobs:						
NIT No.	Brief Description	Estimated Cost (₹)	Cost of EMD (₹)	Pre Bid Date & Time	Due Date & Time of Submission	Date & Time of Opening
CMC/BY/22-23/RS/SS/21	RATE CONTRACT FOR SUPPLY OF DRY TYPE DISTRIBUTION TRANSFORMERS OF RATINGS 400, 630 & 1000 KVA 11/0.415KV	2.25 Crore	4.50 Lakh	01.07.2022 10:00 Hrs	18.07.2022 14:00 Hrs	18.07.2022 15:00 Hrs
CMC/BY/22-23/RS/SS/22	RATE CONTRACT FOR SUPPLY OF PSC POLES 9 MTR 160 KG & 11 MTR 365 KG	0.92 Crore	1.84 Lakh	01.07.2022 11:00 Hrs	18.07.2022 14:00 Hrs	18.07.2022 16:00 Hrs
CMC/BY/22-23/RS/SS/23	RATE CONTRACT FOR SUPPLY, INSTALLATION, TESTING & COMMISSIONING OF 11KV SMART PACKAGED SUBSTATION WITH 1000KVA DRY TYPE TRANSFORMER (PSS Type - 9)	1.91 Crore	3.82 Lakh	01.07.2022 12:00 Hrs	18.07.2022 14:00 Hrs	18.07.2022 17:00 Hrs
CMC/BY/22-23/RS/SS/24	TURNKEY PACKAGE FOR DESIGN, ENGINEERING, MANUFACTURING, SUPPLY, LAYING, JOINTING, TESTING AND COMMISSIONING OF 33KV 3X400 SQ MM XLPE INSULATED CABLES WITH REQUIRED ACCESSORIES AS PER THE SCOPE OF WORK. FOR INFEEDES FROM DEV NAGAR GRID SUBSTATION	15.42 Crore	15.42 Lakh	04.07.2022 10:00 Hrs	18.07.2022 14:00 Hrs	19.07.2022 10:00 Hrs
CMC/BY/22-23/RS/SS/25	TURNKEY PACKAGE FOR AUGMENTATION OF 2 NOS. 66/11 KV POWER TRANSFORMERS FROM 20 MVA TO 31.5 MVA AT BHAGIRATHI GRID SUB-STATION WITH REPLACEMENT OF TWO NOS. 11 KV SWITCHBOARD ALONG WITH ASSOCIATED CIVIL WORKS	12.30 Crore	12.30 Lakh	04.07.2022 11:00 Hrs	18.07.2022 14:00 Hrs	19.07.2022 11:00 Hrs
CMC/BY/22-23/RS/SS/26	TURNKEY PACKAGE FOR CONVERSION OF 33 KV SYSTEM AT GT ROAD GRID FROM OUTDOOR AIS TO INDOOR GIS WITH DOUBLE BUS BAR SYSTEM, AUGMENTATION OF 1 NO 33/11 KV POWER TRANSFORMER FROM 16 TO 31.5 MVA AND INSTALLATION OF 3 NOS 11KV SWITCHBOARD ALONG WITH ASSOCIATED CIVIL WORKS	21.70 Crore	21.70 Lakh	04.07.2022 12:00 Hrs	18.07.2022 14:00 Hrs	19.07.2022 12:00 Hrs
CMC/BY/22-23/RS/MD/27	SURVEY, DESIGN, ENGINEERING, SUPPLY, ERECTION, TESTING, & COMMISSIONING OF RELAY 66KV & 33KV CONTROL & RELAY PANELS ALONG WITH ALLIED EQUIPMENTS, ACCESSORIES, DISMANTLING OF EXISTING EQUIPMENTS AND WORKS ON TURNKEY BASIS AT SHASTRI PARK (EAST) GRID, DELHI	6.26 Crore	6.26 Lakh	04.07.2022 14:00 Hrs	18.07.2022 15:00 Hrs	19.07.2022 15:30 Hrs
CMC/BY/22-23/RS/SS/28	SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF POWER QUALITY MONITORING SYSTEM	1.18 Crore	2.36 Lakh	04.07.2022 15:00 Hrs	18.07.2022 15:00 Hrs	19.07.2022 16:30 Hrs
CMC/BY/22-23/RS/SS/29	SUPPLY OF 4D (LIVE 3D) ECHO CARDIOGRAPHY MACHINE	0.95 Crore	1.90 Lakh	04.07.2022 16:00 Hrs	18.07.2022 15:00 Hrs	19.07.2022 17:00 Hrs
CMC/BY/22-23/RS/SS/30	ANNUAL RATE CONTRACT FOR SUPPLY OF TRANSFORMER NEW INSULATING OIL	3.35 Crore	0.67 Lakh	05.07.2022 16:00 Hrs	18.07.2022 15:00 Hrs	20.07.2022 15:30 Hrs

Cost of each Tender Documents: ₹ 1,180/-
For details in respect of Equipment/BOM/Services, Qualifying requirements, Terms & conditions, purchase/submission of tender documents, corrigendum etc. please visit our website www.bsesdelhi.com ->Tenders-> BSES YAMUNA POWER LTD -> Open Tenders.
Head (Contracts & Materials)
Regd. Off: BSES Yamuna Power Ltd, Shakti Kiran Building, Karkardooma, Delhi-110032 | CIN: U40109DL2001PLC111525
TEL: 011-3997111 | Fax: 011-4124 7787 | Website: www.bsesdelhi.com

PUBLIC NOTICE

Dengue Can be FATAL

Prevent yourself from Dengue, Chikungunia & Malaria

PROTECT YOUR FAMILY BY TAKING FOLLOWING MEASURES

Don't allow accumulation of water in and around your houses and offices

Water in containers for birds should be changed every week

Change the water of Money Plant, Fengsui Plant etc. weekly

Don't keep the tin, tyres, broken utensils, kabad etc. under open sky

Empty and Scrub dry the coolers weekly. Can put temephos granules or petrol or diesel in the coolers which cannot be emptied

Don't throw coconut shells, plastic cups, plates under open sky

Use mosquito repellants/mosquito nets to avoid mosquito bite

Close the overhead tank tightly with lids & cover the water containers properly

Non-compliance of the said advise will lead to the legal action as per the provisions under relevant sections of the New Delhi Municipal Council (Malaria and other Mosquito borne diseases) bye-laws-2007

NDMC 311 App

NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL
TO BE THE GLOBAL BENCHMARK FOR A CAPITAL CITY

For more information, contact 1533
At NDMC 24x7 Control Room
or Download the NDMC 311 App from Google play store & IOS

Advertisement No. 80/2022
Government of India
Public Enterprises Selection Board
invites applications for the post of
DIRECTOR (Personnel)
in
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD.
Last date of receipt of applications in PESB is
by 15:00 hours on **30th August, 2022.**
For details login to website: <https://pesb.gov.in>

ncrtc NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LTD.
(A JV of Govt. of India and participating State Governments)

E-TENDER NOTICE

Bid No.: DM/UD/CPM-ME/173 Tender ID: 2022_NCRTC_120069_1

Online Bids are invited for **Shifting/Modification of Electrical Utilities of 33/11/0.4 KV lines, Transformers etc. of PVVNL, infringing Modipuram Depot** (Revised location of Ch-7960-81600) and FOB area of Modipuram North Station of Delhi-Ghaziabad-Meerut RRTS Corridor of NCRTC.

For detailed information and subsequent addendum/corrigendum (if any), please visit NCRTC website www.ncrtc.in or CPP Portal www.etenders.gov.in/eprocure/app from 27.06.2022 to 19.08.2022 (upto 15:00 hrs).
Sd/- CPM/Meerut
S.V.P.U.A. & T Old Campus, NH-58, Modipuram Meerut - 250110

INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LTD.
(A Government of India Enterprise - Mini Ratna)
CIN-L74899DL1999GO101707

IRCTC Ltd. invites E-Tender as per the below mentioned particulars:-

S. N.	E-Tender No.	Department	Description	Mode of E-Tender	Last Date & Time of Tender Submission
1.	2022/Parcel Lease/Tejas Exp/82501-02/A1	Regional Office Lucknow	Leasing of Front SLR (3.9 Ton) on round trip basis in Tejas Express Trains 82501/02 L/JN-NDLS & back for a period of 01 Year.	E-Tender (Single Packet)	15.07.2022 up to 15:00 hrs.
2.	2022/IRCTC/NZ/EPR/Plastic Bottle collection	Rail Neer Plant, Nangloi	Hiring of Agencies for Collection of Scrap Plastic Bottles & Other related Plastic Materials from Railway Premises or from Other Sources for EPR Compliance.	Two Stage E-Tender through GeM-Portal	18.07.2022 up to 15:00 hrs.
3.	IRCTC/RNB OPP-Labels-1000ml/NNO /GEM/2022	Rail Neer Plant, Nangloi	Supply of 22,000 Kg Pearisled BOPP Label Rolls for 1000ml Rail Neer Bottles.	Two Stage E-Tender through GeM-Portal	18.07.2022 upto 18.00 hrs.

The tender documents can be downloaded from websites "www.irctc.com" "www.tenderwiz.com" and "www.geportal.com" and needs to be submitted at "<http://www.tenderwiz.com/IRCTC>" for SN 1 and at "www.geportal.com" for SN 2 and SN 3. Only online tenders will be accepted.
Note: - In case of any corrigendum/addendum issued on the above advertisement, it will be published only on website "www.irctc.com", "www.tenderwiz.com/IRCTC" and "www.eprocure.gov.in/cppp". No newspaper press advertisement shall be issued for the same. Bidders are therefore requested to visit the websites regularly to keep themselves updated.

Ginger Rail Yatri News Building, New Delhi Railway Station Complex, Aijmer Gate Side, New Delhi-110002 Tel: 011-23221146, 23234763

Our Vision - Quality, Service, Cleanliness & Value
Order food and get it delivered on your train berth call 1523, www.catering.irctc.co.in
Get the app for android and itunes "Food on Track"

MUNJAL SHOWA LIMITED

CIN: L34101HR1985PLC020934
Registered Office & Works: 9-11, Maruti Industrial Area, Sector-18, Gurugram - 122015, (Haryana)
Tel.: +91-124-4783000; **Fax:** +91-124-2341359
Email: cs@munjalshowa.net; **Website:** www.munjalshowa.net

NOTICE

Sub: Transfer of shares under section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of The Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016

This Notice is hereby given to all the shareholders of M/s Munjal Showa Limited pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 6 of Investors Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, read with relevant circulars and amendments thereto.

As per the said rules, dividends which are not paid/ claimed by the shareholders for last seven consecutive years or more have to be transferred/ credited to the DEMAT account of the Authority constituted under the said Rule. In this regard, we wish to bring to the kind notice that all those shareholders who haven't claimed the dividends for the last seven consecutive years, their shares are now due for transfer to the authority.

During the financial year 2021-22, the Company has transferred 15295 equity shares in respect of which dividend has remained unpaid or unclaimed for seven consecutive years or more to the IEPF Authority.

The Company has sent individual notices at the latest available addresses of the shareholders, whose shares are liable to be transferred to the IEPF authority during the financial year 2022-23. Further, in terms of Rule 6(3) of the said rules, the statement containing the details of such shareholders has been duly uploaded on the company's website www.munjalshowa.net for information and necessary action by the shareholders.

Accordingly, the concerned shareholders are requested to claim their unclaimed dividend at the earliest. In case the Company/ RTA doesn't receive any request from the shareholders, the shares shall be transferred to the authority constituted under the said Rule on the completion of the period of three months from the date of the notice.

In order to claiming the unpaid dividend for the year ended March 31, 2015 and onwards so that the shares are not transferred to IEPF: Forms ISR-1 and ISR-2 (with original cancelled cheque bearing the name of the shareholder)
Forms ISR-3, SH-13 or SH-14 (as applicable)

Please send us a written application in this regard along with copy of PAN Card and cancel cheque to the Company's registered office i.e. Munjal Showa Limited, Plot 9-11, Maruti Industrial Area, Sector-18, Gurugram - 122015, (Haryana) or email the documents or any query to cs@munjalshowa.net.

In case, the concerned shareholders wish to claim the shares after transfer to the authority, a separate application in Form IEPF 5, available on the website www.iepf.gov.in has to be made to the Authority.

Also members are requested to notify immediately if there is any change of address, Bank Details and email IDs:

- To their Depository Participants (DPs) in respect of their electronic share accounts, and
- To the Company's Registrar, MCS Share Transfer Agent Limited, F-65 Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi-110020 in respect of their physical share folios, if any, quoting their folio number.

For any further queries, you may please write to us at cs@munjalshowa.net or call at 0124-4783000.

For **MUNJAL SHOWA LIMITED**
Sd/-
(Neha Bansal)
Company Secretary

Place : Gurugram
Date : 24.06.2022

Allow us to give you the simplest investment tip yet.

Subscribe.

Business news that supports new-age leadership



Scan the QR code or visit livemint.com to subscribe



FOR LEADERS OF THE NEW ORDER

